



The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

Press Release

04 मार्च 2021

रांची

इकफ़ाई विश्वविद्यालय द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पर सर्टिफिकेट कोर्स

एग्री-बिजनेस वर्किंग प्रोफेशनल्स को डिजिटल स्किल्स की कौशल देने के लिए, इकफ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड ने डिजिटल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पर 8 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया।

कार्यक्रम की ट्रेनिंग मिश्रित मोड में दिया जाएगा, जिसमें रविवार को डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन क्लासेस (2 घंटे) का उपयोग करके अध्ययन सामग्री का स्व-अध्ययन शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च 2021 है और कक्षाएं 14 मार्च 2021 से शुरू होंगी।

नए कार्यक्रम पर प्रेस को जानकारी देते हुए, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओ आर एस राव ने कहा, “कृषि की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि प्रबंधन का डिजिटल परिवर्तन आवश्यक है। इन क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को प्रासंगिक डिजिटल कौशल के साथ खुद को फिर से तैयार करना है ताकि वे पेशेवर रूप से विकसित हो सकें। यह सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उन्हें डिजिटल कौशल के नए कौशल प्रदान करने में मदद करेगा। इस कोर्स का लाभ कृषि मूल्य श्रृंखला में काम करने वाले कर्मचारी, जैसे कृषि, ग्रामीण ऋण प्रदाता, कृषि-इनपुट कंपनियां, खाद्य प्रसंस्करण संगठन, कृषि उत्पादों के थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता, सरकार और कृषि छात्रों और संकाय सदस्यों के नीति निर्माताओं और कार्यक्रम से जुड़े लोगों को मिल पाएगा। प्रो राव ने कहा की कार्यरत पेशेवरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, रविवार को कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।

कार्यक्रम में रुचि रखने वाले उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.iujharkhand.edu.in](http://www.iujharkhand.edu.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ई-मेल ([cert.admissions@iujharkhand.edu.in](mailto:cert.admissions@iujharkhand.edu.in)) या दूरभाष नंबर (077177-52967) पर संपर्क कर सकते हैं।

=====